

Date: 04.09.2024

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
New Trading Wing,
Dalal Street, Mumbai- 400001.
Scrip Code: 533152

The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block "G"
5th floor, Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai- 400051.
Symbol: MBLINFRA

Sir.

Newspaper Publication- Notice to Shareholders

Please find enclosed copy of Notice to the shareholders for Annual General Meeting (AGM), E-Voting information and Book Closure published on 04.09.2024 in Financial Express, English (All India) and Jansatta, Hindi (New Delhi) pursuant to the requirement of Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, circulars issued by MCA and SEBI, in connection with ensuing AGM scheduled on Monday, 30th September, 2024, at 3.00 p.m. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility.

Please treat this as compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking you, Yours faithfully,

For MBL Infrastructure Ltd.

Encl. a/a

Company

(Formerly MBL Infrastructures Ltd.)

FINANCIAL EXPRESS



TATA POWER

(Corporate Contracts Department, 5th Floor Station B) Tata Power, Trombay Thermal Power Station Chembur-Mahul, Mumbai 400074, Maharashtra, India: (Board Line: 022-67175323, Mobile: 7208817950) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING TENDER

The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the following package Outline Agreement for Civil Infra Jobs at Trombay for 3 years Chembur-Mahu Mumbai 400074

For detail NIT, please visit Tender section on website https://www.tatapower.com. Las date for receipt of request for issue of bid document is 15" September 2024 up to 1500 Hrs.



MASTER TRUST LIMITED

(CIN: L65991PB1985PLC006414) Regd. Office: Master Chambers, 19, 3rd Floor, Feroze Gandhi Market, Ludhiana - 141001, Punjab, Phone : 0161-5043500, 513

Website: www.mastertrust.co.in, E-mail: secretarial@mastertrust.co.in NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 39TH Annual General Meeting of Members of the Company "MASTER TRUST LIMITED" will be held on Monday, 30th day of September 2024, at 4.30 P.M. at Hotel Silver Stone, D - Block, SCO. 14 - 15, Dugri Rd, Near Libra Bus Service, Opposite Radha Swami Fatak, D-Block, Model Town Extension, Model Town Ludhiana, Punjab 141002 to transact the businesses set out in the Notice convening the meeting ("the Notice") for the Financial Year 2023-24.

In compliance with MCA circulars and SEBI circular dated May 13, 2022, the Notice of 39th Annual General Meeting and detailed instructions and information relating to e voting, has been sent through electronic mail to the members whose e-mail addresses have been registered with the Company/RTA/Depositories and the same is also available on the Website of the Company at https://master-trust-strapi.s3.ap-south 1.amazonaws.com/AGM_2023_24_eb5a60edfe.pdf and the Annual Report i available at https://master-trust-strapi.s3.ap-south-1.amazonaws.com Annual_Report_2023_24_4d19782152.pdf

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting), provided by CDSL

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in dematerialised form are allowed to vote through their Demat Account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email address in their Demat Accounts in order to access e-Voting facility.

The e-voting period commences on Wednesday, September 25, 2024 at 10:00 AM and ends on Sunday, September 29, 2024 at 5:00 PM. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialised form as on Friday, September 20, 2024 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on 20.09.2024. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares on the Cut-off date, may obtain a login ID and password by sending a request to www.evotingindia.com.

The Company has appointed Pooja Mahajan Kohli, Company Secretary in Practice Proprietor of M/s. Pooja M Kohli& Associates as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and voting through Ballot Form in AGM, in a fair and transparent manner.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may als attend/participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Detailed procedure for remote e-voting / voting during the meeting is provided in th Notice of the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 25th September, 2024 to 30th September, 2024 (both days inclusive) for the ensuing 39th

Annual General Meeting of the Company In case shareholders have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or send an e-mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact a

022-23058542/43 or 1800 225533. For Master Trust Limited

Place: Ludhiana

Date: 03.09.2024

VIKAS GUPTA Company Secretary & Compliance Officer

STAR CEMENT LIMITED

CIN: L26942ML2001PLC006663 Regd. Office: Vill: Lumshnong, P.O.: Khaliehriat, Dist.: East Jaintia Hills, Meghalaya - 793210 Corporate Office: Century House, 2nd Floor, P-15/1, Taratala Road, Kolkata - 700088 Tel: 033-2401-5555

CEMENT

Email: investors@starcement.co.in, Website: www.starcement.co.in NOTICE TO MEMBERS-23RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that 23rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Thursday, 26th September, 2024 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice dated 09th August, 2024.

The Notice convening AGM along with Annual Report of the Company has been sen through electronic mode on 03rd September, 2024 to all the members whose e-mai addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant(s), in accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI'). The Notice and Annual Report for the Financial Year 2023-24 are available & can be downloaded from the website of the Company viz., www.starcement.co.in and also or the website of Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed, viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com. The requirements of sending physical copy of Notice and Annual Reports for FY 2023-24 to the members have been dispensed with pursuant to MCA and SEBI circulars.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companie (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20th September, 2024 to Thursday, 26th September, 2024 (both days inclusive).

Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platforn provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Members may access the platform to attend the AGM through VC/OAVM at http://www.evoting.nsdl.com under the Shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholders/members login where the EVEN of Compan

Members of the Company be and are hereby informed that pursuant to Section 108 o the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended the members are provided with the facility to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The detailed e-voting instructions are as enumerated below:-

(a) Date and time of commencement of remote e-voting: Sunday, 22nd September, 2024 at 9:00 a.m. (IST). (b) Date and time of end of remote e-voting: Wednesday, 25th September, 2024 at 5:00

(c) Cut-off date: Thursday, 19th September, 2024.

(d) The voting rights of the members shall be in proportion to the number of equity shares held by them as on the Cut-off date i.e., Thursday, 19th September, 2024.

(e) Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Wednesday, 25th September, 2024. The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after aforesaid date and time.

(f) Those Members who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM. (g) Notice of Annual General Meeting inter alia containing the procedures of remote

e-voting, e-voting during the AGM & attending the AGM through VC/OAVM are available on the website of the Company at www.starcement.co.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. (h) Members who have acquired shares after the despatch of the Notice of AGM and

before the cut-off date may approach the NSDL/Company for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means.

(i) A member may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising his ight to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast their votes again A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e voting or e-voting during the AGM. Members holding shares in physical form, whose e-mail addresses are not registered

with the Company, may register their e-mail address by sending the scanned copy of signed request letter mentioning their name, folio number, number of shares held and complete postal address, self-attested copy of the PAN Card along with self-attested copy of any document (such as Aadhar Card/Driving License/Voter ID Card/Passport/latest Electricity Bill/latest Telephone/Mobile Bill/Bank Passbook particulars) to the Company at investors@starcement.co.in or to the RTA, i.e Maheshwari Datamatics Private Limited at mdpldc@yahoo.com. Alternatively members may use the "E-communication registration form" available on the website of the Company www.starcement.co.in under the Investors section. Members holding shares in demat form can register/update their e-mail address with their

The Company has appointed M/s MKB & Associates, Practicing Company Secretaries (Firm Registration No.- P2010WB042700) as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. In case of any queries you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-21-0991 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013; Email: evoting.nsdl.com; Telephone nos.

+91-22-2499 4545/1800-21-0991. For Star Cement Limited

Date: 03rd September, 2024

Place: Kolkata

Debabrata Thakurta Company Secretary M. No. - F6554

TARSONS PRODUCTS LIMITED

CIN: L51109WB1983PLC036510 Registered Office: Martin Burn Business Park, Room No. 902, BP - 3, Salt Lake, Sector - V, Kolkata - 700091, West Bengal, India Phone: 033-35220300; Email: info@tarsons.com; Website: www.tarsons.com

NOTICE OF 415T ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING. BOOK CLOSURE AND DIVIDEND INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 41st (Forty-First) Annual General Meeting ("AGM" or the "Meeting") of the members of TARSONS PRODUCTS LIMITED ('the Company') will be held on Friday, 27th September, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing or Other Audio Visual Means (VC/OAVM) in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules made thereunder, SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, and relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) Securities Exchange Board of India (SEBI) to transact the businesses as set out in the Notice calling AGM.

The Company has completed dispatch of the Notice along with the Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 on 3rd September, 2024 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice and the Annual Report for the financial year 2023-24 are available on the website of the Company viz., www.tarsons.com and on the website of the stock exchanges where equity shares of the Company are listed viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com. The Notice is also available on the website of Share Transfer Agent of the Company viz., KFin Technologies Limited (Agency engaged for providing e-Voting facility) viz., https://evoting.kfintech.com.

The Board of Directors of the Company at their meeting held on 30th May, 2024 have recommended final dividend of ₹ 2/- per equity share of ₹ 2/- each for the financial year ended 31" March, 2024. The record date for the purpose of final dividend for the financial year ended 31st March, 2024 is Friday, 20th September, 2024. The dividend if approved by the members at the 41st AGM, will be remitted, after deduction of tax at source, as applicable, through electronic mode to those Members who have furnished their required bank details to the Company/the respective Depository Participants ('DPs').

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), SS-2 issued by the ICSI and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company is providing remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted at the 41° AGM. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as venue voting on the date of the AGM will be provided by KFin. Members, who are holding shares of the Company as of the cut-off date for e-voting i.e., Friday, 20th September, 2024, be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting. If members opt for remote e-voting, then they should not vote at the Meeting. They can also cast their votes during the AGM using e-voting facility, if not casted the same during the remote e-voting period. However, once an e-vote on a resolution is casted by a member, such member is not permitted to change it subsequently or cast the vote again. Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the date of the Meeting can attend the Meeting and participate in the Meeting but shall not be

The remote e-voting facility will be available from 23rd September, 2024 (09:00 A.M. IST) and ends on 26" September, 2024 (05:00 P.M. IST). The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled upon

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e., Friday, 2011 September, 2024, may obtain the User ID and Password in the manner as mentioned below . If the mobile number of the Member is registered Folio No./DP ID Client ID then can

Example for NSDL: MYEPWD IN12345612345678 Example for CDSL: MYEPWD 1402345612345678

If email ID of the Member is registered against Folio No./DP ID Client ID then on the home page of https://evoting.kfintech.com, the Member may click 'Forgot password' and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password.

3. Members may send an email request to: evoting@kfintech.com All documents referred to in the Notice and the Explanatory Statement setting out material

facts can be obtained for inspection by writing to the Company at its email ID investor@tarsons.com till the date of AGM. The same will be replied by the Company suitably. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Act, the Register of Contracts or arrangements on which the directors are interested under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available electronically for inspection during the AGM.

In case of any query and/ or grievance, in respect of voting by electronic means, Shareholders may refer to Help mentioned below & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the 'Download' section of https://evoting.kfintech.com OR Email at einward.ris@kfintech.com or evoting@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL:

Helpdesk details Individual Shareholders Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL

holding securities in helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com Demat mode with CDSL or contact at toll free no. 1800 22 55 33. Individual Shareholders Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL

holding securities in helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at Demat mode with NSDL toll free no.: 022-4886 7000 and 022-2499 7000.

Please keep the most updated email id registered with the Company / your Depository Participant to receive timely communications. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and

in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting of votes through remote e-voting and remote e-voting during the AGM. For Tarsons Products Limited

Santosh Kumar Agarwal Chief Financial Officer and Company Secretary Place: Kolkata & Compliance Officer Date: 3rd September, 2024 Membership No. 44836



CORAL LABORATORIES LIMITED

Corp Office: 3/B Patanwala Compound, Opp. Shreyas Cinema, L.B.S. Marg, Ghatkopar (W), Mumbai, Maharashtra - 400086. Tel: 022-2500 5245 | Email: cs@corallab.com | Website: www.corallab.com CIN: L24231MH1997PLC422233

NOTICE OF THE 42^{NO} ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"). NOTICE OF BOOK CLOSURE & DIVIDEND

NOTICE is hereby given, pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), that the 42" Annual General Meeting ("AGM") of Coral Laboratories Limited ("the Company") will be held on Friday, 27" September, 2024 at 01.30 pm through electronic mode video conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 14/2020 dated 08.04.2020, General Circular No. 17/2020 dated 13.04.2020, General Circular No. 22/2020 dated 15.06.2020, General Circular No. 33/2020 dated 28.09.2020, General Circular No. 39/2020 dated 31.12.2020, General Circular No.10/2021dated 23.06.2021, General Circular No. 20/2021 dated 08.12.2021, General Circular No. 3/2022 dated 05.05.2022 and General Circular No. 10/2022 dated 28.12.2022 and General Circular No. 09/2023 dated 25.09.2023 ('MCA Circulars') and SEBI vide it's circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12.05.2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated 15.01.2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated

transact the businesses as set out in the Notice of the AGM Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM. The procedure and instructions for joining the AGM through VC/OAVM are stated in the

13.05.2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05.01.2023 ('SEBI

circular') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), to

The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.corallab.com, the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com . The Notice will also be available on the website of Link Intime India Pvt Ltd (RTA) https://instavote.linkintime.co.in

The detailed procedure and instructions for casting votes through remote e-voting or e-voting during the AGM for all Members (including the Members holding shares in physical form/ whose email addresses are not registered with the DPs/ Company/ RTA) are stated in the Notice.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rules made thereunder and Regulation 42 of LODR, the Register of Members and transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 21" September , 2024 to Friday, 27" September, 2024 (both days inclusive) for ascertaining the list of Members who would be entitled to receive dividend of Rs. 2/- (20%) per Ordinary Equity Shares of the face value of Rs. 10/- each for the year ending 31st March, 2024, that may be declared at the AGM of the Company. The dividend, if declared, at AGM will be paid after 27"

September, 2024 to those Members or their mandates: a) whose names appear as Beneficial Owners as at the end of the business hours on Friday, 20th September, 2024, in the list of Beneficial Owners to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services Limited in respect of the shares held in electronic form; and

 b) whose names appear as Members in Register of Members of the Company as at the end of the business hours on Friday, 20th September, 2024, after giving effect to valid request(s) received from transmission/ transposition of shares and lodged with

the Company/its RTA on or before Friday, 20th September, 2024 SEBI has made it mandatory to use the bank account details furnished by the depositories and bank account details maintained by the RTA for payment of dividend

to the Members electronically.

Place: Mumbai

Date: 04.09.2024

The shareholders who is holding shares in physical form shall be paid dividend only through electronic mode subject to their folios being KYC documents, the dividend in respect of such folio would be withheld till the time the shareholder provides the same.

In order to receive the Notice and Annual Report in electronic mode, Members who have not yet registered their e-mail are requested to register / update their email addresses with the Depositories through the concerned Depository Participants in respect of shares held in electronic mode and with Link Intime India Pvt Ltd. in respect of shares held in physical mode, SEBI has mandated furnishing PAN, contact details, bank details, nomination. Members holding shares in physical mode by submitting ISR-1 & ISR-2 to Company/RTA. Members may note that pursuant to the Income Tax Act, 1961, as amended by the

Finance Act, 2020, dividend income has become taxable in the hands of the Members with effect from 1" April , 2020 and therefore, the Company shall be required to deduct tax at souce (TDS) at the prescribed rates from the dividend payable to members. For the prescribed rates for various categories, Members are requested to refer to the Finance Act, 2024. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate as applicable, Members are requested to submit documents in accordance with the provisions of the Act on or before 17 September, 2024. Members are requested to update their PAN with the Company/ Link Intime India Pvt Ltd (in case of shares held in physical mode) and Depositories (in case of shares held in demat mode).

For Coral Laboratories Limited

Dhwani Desai Company Secretary & Compliance Officer

Date: 03.09.2024

Navin Fluorine International Limited Regd. Office: Office No. 602, Natraj by Rustomjee, Near Western Express Highway, Sir Mathuradas Vasanji Road. Andheri (East), Mumbai 400069, India Tel. No.022-66509999 Fax No.022-66509800,

Website: www.nfil.in, E-mail: investor.relations@nfil.in CIN: L24110MH1998PLC115499

NOTICE TO SHAREHOLDERS TRANSFER OF EQUITY SHARES TO

INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF)

Pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time, the Company is required to transfer the shares, in respect of Dividend which has remained unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, to the IEPF Authority. Pursuant to the said Rules, the Company has sent individual communication to those shareholders whose shares have become due for transfer to IEPF. The next due date for transfer of such shares is December 03, 2024. The details of such shareholders are also being made available on the Company's website at https://nfil.in/investor/unpaid.html.

Notice is further given to such shareholders to claim/encash the unpaid/ unclaimed Dividend from Interim Dividend 2017-18 onwards latest by November 22, 2024 to prevent transfer of shares to the IEPF. It may please be noted that if Dividend remains unclaimed/unpaid as on the due date, the Company will proceed to initiate action for transfer of shares of such shareholders to IEPF. On transfer of the dividend and the shares to IEPF, shareholders may still

claim the same by making an application to IEPF Authority in Web Form IEPF-5 as per the applicable Rules. The said Web Form is available on the website of IEPF viz. www.iepf.gov.in.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, Unit: Navin Fluorine International Limited Selenium, Tower B, Plot No. 31- 32, Gachibowli, Financial District Nanakramguda, Hyderabad -500032, Tel: +91 40 67162222 / Toll Free No : 1800-309-4001, email ID: einward.ris@kfintech.com

PADMANABH MAFATLAL GROUP Place: Mumbai

Dated: September 03, 2024

Charles of salas bitemposition **Company Secretary**

For Navin Fluorine International Limited

Niraj B. Mankad

President Legal &

McNALLY BHARAT ENGINEERING COMPANY LIMITED

Registered Office: Four Mangoe Lane, Kolkata - 700 001 Telephone: +91-33-6831 1001 / 1212 ; Facsimile: +91-33-3014 1212 Website: www.mcnallybharat.com Email: invcom@mbecl.co.in, mbecal@mbecl.co.in CIN: L45202WB1961PLC025181

Registrar & Share Transfer Agent: Maheshwari Datamatics Private Limited 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700 001 Telephone: 033-2243 5029/ 5809 ; Facsimile: 033-2248 4787 Website: www.mdpl.in Email: mdpldc@yahoo.com

NOTICE

This to inform that further to the Notice published on 1st September 2024 in the English daily, Financial Express and the Bengali daily Sukhobar regarding conduct of Annual General Meeting of the Company through video conference/ other audio visual means and remote e-voting etc., at 3.30 P.M on Wednesday, 25th September 2024, Shareholders are hereby informed that National Securities Depository Limited (NSDL), for and behalf of the Company, has e-mailed the Annual Report for the Financial Year 2023-24 along with the Notice of the Annual General Meeting on 3rd September 2024 to all those shareholders whose e-mail address is registered with the Company/depositories. The Annual Report along with the Notice convening AGM is also available on the Company website www.mcnallybharat.com, website of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the

Remote e-voting commences at 10.00 A.M. on 22nd September 2024 and ends at 5.00 P.M. on 24th September 2024. The remote e-voting facility will not be allowed beyond the said time and date and NSDL will disable the remote e-voting module thereafter. The cut-off date for determining entitlement of electronic voting is Wednesday, 18th September 2024. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.The Register of

Members and share transfer books will remain closed from 19th September

2024 to 21st September 2024, both days inclusive.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 18th September 2024 may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in by mentioning their folio No./DP ID and Client ID. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked

Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual available at the 'download' section of https://www.evoting.nsdl.com/or call NSDL on 1800-1020-990 and 1800-224-430 (toll free). For technical assistance / support before or during the AGM,

Members may contact NSDL at 1800-1020-990 or write to them at

evoting@nsdl.co.in For McNally Bharat Engineering Company Limited

Indrani Ray

Kolkata 4th September 2024 Company Secretary

MBL INFRASTRUCTURE LTD. (Formerly known as MBL Infrastructures Ltd.)

CIN: L27109DL1995PLC338407 Corp. & Regd. Office: Baani Corporate One Tower, Suite No. 308, 3rd Floor. Plot No. 5, District Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025 Tel: +91- 011 44792982

E-mail: cs@mblinfra.com, Website: www.mblinfra.com

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Twenty Ninth Annual General Meeting (AGM) of MBL Infrastructure Ltd. (the Company) will be held on Monday, 30th September, 2024 at 3:00 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, to transact the business (es) as set out in the Notice which alongwith the Annual Report for the year ended 31st March, 2024, to be sent electronically to Members of the Company whose email addresses are registered with the Depositories / Link Intime India Private Limited, RTA. These documents are available on the Company's website www.mblinfra.com, and on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.

The members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM is provided in the Notice to the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has made arrangement with NSDL to provide remote e-voting and e-voting during the AGM on the resolutions to be considered at the AGM.

Members, whose names are recorded in the Register of Members of the

Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM for information purpose only. The manner of remote e-voting and voting at the AGM for members holding shares in physical mode or in dematerialized form or who have not registered their email address with the Company/Depository Participant, is provided in the notice of the AGM. Persons becoming members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before 23rd September, 2024 may write to NSDL at evoting@nsdl.co.in or delhi@linkintime.co.inrequesting for user ID and password for remote e-voting. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing user ID and password for this purpose. The period for remote e-voting starts at 9.00 a.m. on Friday, 27th September,

2024 and ends at 5.00 p.m. on Sunday, 29th September, 2024 thereafter the remote e-voting will be blocked by NSDL. Further, once the vote on a resolution is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently. Members who have cast their votes by remote e-voting may attend the meeting but will not be entitled to cast their votes at the meeting once again. In case of any query / grievance relating to AGM, Members may write to Mr. Anubhav Maheshwari, Company Secretary, MBL Infrastructure Ltd.,

Baani Corporate One, Suite No. 308, 3rd Floor, Plot No. 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110025 or contact at 011-44792982 or through email cs@mblinfra.com. Further for e-voting queries, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for them under the "Downloads" section of https://www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL and / or Mr. Amit Vishal, Deputy Vice President, NSDL at e-voting@nsdl.co.in NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the Register of Members & Share Transfer books of the Company will remain closed from 24th September 2024 to 30th September, 2024 (both days inclusive)

For MBL Infrastructure Ltd.

By Order of the Board

FINKURVE FINANCIAL SERVICES LIMITED (CIN: L65990MH1984PLC032403)

Regd. Office: 202/A, 02nd Floor, Trade World, D-Wing, Kamala Mills Compound, S.B. Marg, Lower Parel West, Mumbai 400013 Tel No.: 022-4244 1200; Email id: finkurvefinancial@gmail.com;

Website: www.arvog.com

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ('AGM') of the Shareholders of 'Finkurve Financial Services Limited' will be held on Saturday, 28th day of September, 2024 at 2.00 p.m. Indian Standard Time ('IST') through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM'). In compliance with the General Circular 10/2022 dated 28^{th} December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI/ HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by Securities

and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as

'the circulars'), and all other applicable laws, to transact the business that will

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24, have been sent to the shareholders whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) ('DP') These documents are also available on the website of the Company at www.arvog.com and on the website of BSE Limited i.e., www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on 03rd September, 2024.

through E-Voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The E-Voting period commences on Wednesday, 25th September, 2024 at 09:00 A.M. and ends on Friday, 27th September, 2024 at 05:00 P.M. The E-Voting module shall be disabled for voting after 5.00 p.m. on Friday, 27th September, 2024. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights shall be as per the number of Equity Shares held by the

cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. The procedure of electronic voting is available in the Notice of 40th Annual General Meeting. In case of any queries pertaining to E-Voting, you may refer to Frequently Asked Questions (FAQ's) at www.evoting.nsdl.com or contact helpdesk no. 022 - 2499 4600.

For Finkurve Financial Services Limited

Date: 03rd September, 2024

Place: Mumbai

UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMITED

Regd Office.: 2nd Floor, 3-6-307/1, 3-6-307/2, 3-6-308/1, Hyderguda Main Road, Simple Natural Systems, Basheer Bagh, Hyderabad, Telangana, 500004, Ph:040-48538411,

E-mail:info@udayjewellery.com; website:www.udayjewellery.com; CIN: L74900TG1999PLC080813

INFORMATION REGARDING 25TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEOCONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

of Hariom UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on Monday, the 30th day of September, 2024, at 12:30 PM. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, followed by General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 9/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India.

In Compliance with the abovementioned circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 will be sent only through electronic mode to those Members whose e-mail address is registered with the Company/ Registrar and Transfer Agent / Depository Participants / Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report 2023-24 will also be available on the Company's website www.udayjewellery.com, website of the Stock Exchange(s) i.e., BSE Limited https://www.bseindia.com/, and on the website of Central Depository Services (India) Limited https://www.evotingindia.com/. The Company shall send physical copy of the Annual Report 2023-24 to the members who specifically request for the same by sending an email at info@udayjewellery.com.

Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/ 2020/242 dated December 9, 2020, the Company is providing remote e-voting facility to its members, to enable them to cast their votes electronically through the facility provided by Central Depository Services (India) Limited. Additionally, the facility for voting during the AGM will also be made available. Members present in the AGM through VC/OAVM and who have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. Detailed instructions for remote e-voting, e-voting during the AGM andattending the AGM through VC/ OAVM will

their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's RTA, Bigshare Services Private Limited, 306, Right Wing, 3rd Floor, Amrutha Ville, Opp. Yashoda Hospital, Raj Bhavan Rd, Somajiguda,

Hyderabad, Telangana 500082, E-mail: bsshyd@bigshareonline.com.

Date: 03-09-2024 Place: Hyderabad (Ritesh Kumar Sanghi) **Managing Director** DIN: 00628033

Regd. Off: B-29, EEIE STAGE-II, BALANAGAR, HYDERABAD- 500037

CIN:L29219TG1983PLC004319

NOTICE OF THE 40th ANNUAL GENERAL MEETING INFORMATION OF REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of Lokesh Machines Limited(the "Company") will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual

Means ("OAVM") on Friday, September 27, 2024, at 11:00 A.M. (IST) in compliance with Companies Act, 2013 ("Act") read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, Requirements), Regulation, 2015 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD

The Notice along with Annual Report is also available on the website of the Company a https://www.evoting.nsdl.com.

provided by NSDL at https://www.evoting.nsdl.com by using their remote e-Voting login

credentials and selecting the EVEN for the AGM. The instructions for joining the 40th AGM of the Company are provided in the Notice convening the AGM. Members attending through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

voting through electronic means will also be available at the AGM for members who have not cast their vote(s) by remote E-voting already.

Information and Instructions including the details of user ID and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending AGM through VC / OAVM.

The remote e-voting shall commence on September 24, 2024, at 09:00 A.M. (IST) and ends on September 26, 2024, at 05:00 P.M. (IST). Remote e-Voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) on September 26, 2024. The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

A member may participate in the AGM even after exercising his/her vote, by remote e-Voting, but shall not be allowed to vote again in the AGM. Only a person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e., September 20, 2024, shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or voting through electronic voting system at the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the Cut-off date, may obtain the login ID and password in the manner as provided in the Notice of AGM. However, if the member is already registered for e-Voting then the existing user ID and password can be used for remote e-Voting. The manner of remote e-Voting and voting by electronic means during the AGM by members

their email addresses is provided in the Notice of the AGM. 2. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 21, 2024, to September 27, 2024(both days inclusive) for the ensuing 40th Annual General Meeting of the Company.

Members seeking to inspect such documents can send an email to cosecy@ lokeshmachines.com. 4. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., NSDL and CDSL:

evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000. Securities held with CDSL Please contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 - 21 - 09911.

> For & on Behalf of Board of Directors of **Lokesh Machines Limited Gurprit Singh**

financialexp.epapr.in _____

Place: New Delhi

for the purpose of AGM of the Company.

Anubhav Maheshwari Company Secretary

63 Responsible Care

be set forth in the Notice of the Meeting.

Member(s) as on Friday, 20th September, 2024. The Members are eligible to

By order of the Board of Directors

Sd/-Ketan Kothari

UDAY

The Company is pleased to provide its members the facility to exercise their Right to Vote by electronic means and the business may be transacted

Chairman (DIN: 00230725)

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of the Members

In compliance with Section 108 of the Act, read with the corresponding rules,

be provided in the Notice of the AGM. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through

For UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMITED

LOKESH MACHINES LTD

Ph: 040-23079310, E-mail:cosecy@lokeshmachines.com Website: www.lokeshmachines.com

issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure 2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) read with previous circulars issued by MCA and SEBI (hereinafter collectively referred to as the "Circulars"), to transact the business listed in the Notice convening the AGM of the In accordance with the aforesaid circulars, the aforesaid Notice and Annual Report have been sent only to the members whose email Ids are registered with the RTA/Depository Participants.

https://www.lokeshmachines.com/ investment-center.php?key=annual-reports06-15-56 and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL a Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast of AGM

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to all its members the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting services provided by NSDL. Members holding shares in the physical/electronic form as on the cut-off date i.e., September 20, 2024, may cast their vote through remote E-voting. Further, the facility for

Date of Completion of electronic dispatch of Notice of AGM of the Company: September 03, 2024.

holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered

3. The documents referred to in the Notice will be available for inspection without any fees to the members of the company from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM.

Login type Securities held with NSDL Please contact NSDL helpdesk by sending a request

Company Secretary& Compliance Officer

Kolkata

Date: September 03, 2024

Place: Hyderabad

पंजीकृत कार्यालय का पताः कमरा HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED नं. 144, सी-विंग, निर्माण भवन, (A Government of India Enterprise)

मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली, 110001 सीआईएन: L70101DL2005GOI132162 हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) वेबसाइटः www.hpil.co.in ईमेलः info@hpil.co.in

20वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदृद्वारा नोटिस दिया जाता है कि नोटिस में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी के सदस्यों की 20वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को 11:30 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधन (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुपालन में, 20वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज शामिल हैं, उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) / कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) के साथ

इसके अलावा, एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.hpil.co.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट यानी, www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 20वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं, जो 25 सितंबर, 2024 को सुबह 11:30 बजे भा.मा.स. अर्थात निर्धारित समय से 15 मिनट पहले से सदस्यों के लिए खुली रहेगी और कंपनी वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए एजीएम की तारीख को निर्धारित प्रारंभ होने के समय 30 मिनट बाद विंडो बन्द कर सकती है।

जिन सदस्यों ने अब तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, या अपनी ई-मेल आईडी बदलना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे इसे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आरटीए के साथ पंजीकृत/बदलें, ताकि सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो सकें।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 20वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') के उद्देश्य से गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 से बुधवार, 25 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बन्द रहेंगे। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और यथासंशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी एजीएम

में लेन-देन की जाने वाली सभी मदों के संबंध में उन सभी पात्र सदस्यों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के समय वोटिंग दोनों) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग द्वारा प्रस्तावित करती है, जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर (भौतिक रूप में होल्डिंग) या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर (इलेक्ट्रॉनिक रूप में होल्डिंग) में बुधवार, 18 सितंबर, 2024 (कट-ऑफ तारीख) तक दर्ज हैं। सीडीएसएल रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 20वीं एजीएम में भागीदारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 20वीं एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई-वोटिंग अविध रिववार, 22 सितंबर, 2024 (0900 बजे) से शुरू होकर मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 (1700 बजे) को समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। विस्तृत निर्देश नोटिस में दिए गए हैं और सदस्यों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

वे सदस्य, जो उपरोक्त अवधि के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डालते हैं और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। इसके अलावा, जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है. वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन बाद में उसे बदलने या वार्षिक आम बैठक में पुनः मतदान डीमैट और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग के माध्या

से मतदान करने का तरीका और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकत नहीं किया है. उनके लिए एजीएम की सूचना में प्रावधान किया गया है।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

iv. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है, वह एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का शेयरधारक बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, उसे एजीएम की सुचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर मतदान के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यदि उनके पास डीमैट रूप में शेयर हैं. तो वे अपने डीपी के साथ इसे पंजीकत करें और यदि उनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं. तो कंपनी/आरटीए के साथ इसे पंजीकृत करें।

इसके अलावा, कंपनी ने एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए मेसर्स राहुल चौधरी एंड एसोसिएट्स के सीएस राहुल चौधरी (एसीएस 54713) को स्क्रिटनाइजर के रूप में नियक्त किया है। जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर बताते हुए 18 सितंबर, 2024 को शाम 6:00 बजे तक agm@hpil.co.in या info@hpil.co.in पर अनुरोध भेजकर खुद को पहले से पंजीकृत कर सकते हैं।

vii. कंपनी एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार

यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

हेमीस्फेयर पॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड के लिए

दिनांक: 02.09.2024 स्थानः नई दिल्ली

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

कल्याण कैपिटल्स लिमिटेड

(पहले आकाशदीप मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ज्ञात) CIN: L28998DL1983PLC017150

पंजीकृत कार्यालय : प्लाजा–3, पी–204, द्वितीय तल, सेंट्रल स्क्वायर, 20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बाड़ा हिन्दू राव, दिल्ली–110006 कार्पोरेट कार्यालय : तृतीय तल, साइट-4, इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद-201010, गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश

फोन: 011-43523562, वेबसाइट: www.kalyancapitals.com ई—मेल : info@kalyancapitals.com

40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और तदधीन विरचित नियमों के लागू प्रावधानों, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिम बोर्ड ("सेबी") (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, २०१५ के साथ पिटत परिपत्र सं. १०/२०२२ दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 के साथ पठित परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 तथा परिपत्र सं. 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" कहे गए हैं) तथा सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/ पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 तथा सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी-2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 ("सेबी परिपत्र") (एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र सामूहिक रूप से "परिपत्र" कहे गए हैं) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कल्याण कैपिटल्स लिमिटेड (पहले आकाशदीप मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ज़ात) के सदस्यों की चालीसवीं (40वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को अप. 3.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 40वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्यों की गणना

अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी। परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तय वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना ("वार्षिक रिपोर्ट") केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी गई है जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट ("आरटीए" / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट ("डीपी") के पास पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना प्रेषण का कार्य 03 सितम्बर, 2024 को पूरा हो गया है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://kalyancapitals.com/ wp-content/uploads/2024/09/JGJ-KCL-Annual-Report-2024-.pdf स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की

वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता अधिदेश पंजीकृत/अद्यतन करने की विधि

जिन सदस्यों की ई–मेल आईडी पहले से ही कम्पनी/आरटीए/डीपी के पास पंजीबद्ध है, वे एजीएम की सुचना में दिए गए रिमोट ई—वोटिंग के साथ साथ एजीएम में ई—वोटिंग हेतु अनुदेशों का पालन कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट, सचना आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त करने के लिए उसको पंजीकृत

जिन सदस्यों के पास कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में हैं, वे कम्पनी के आरटीए, इंडस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड के पास निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 और अन्य संबद्ध प्रपत्रों में विवरण पंजीकृत/अद्यतन करवा सकते हैं। जिन सदस्यों के पास कम्पनी के इक्विटी शेयर अभौतिक रूप में हैं, वे अपने संबंधित डीपी से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा सझाई गई प्रक्रिया का पालन करें।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए अनुदेश

कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली. 2014 के नियम 20 तथा अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पिठा भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा आम बैठकों के विषय में जारी किए गए सचिवीय मानकों तथा सेबी (सूचीय दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावल, २०१५ ("सूचीयन विनियमावली"), यथा संशोधित, के विनियम ४४, एमर परिपत्रों के अनुपालन में, सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (एजीए से पहले) और ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम के दौरान) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपना वोट डालने की सुविध प्रदान की जाएगी। वोट डालने की सुविध एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में ई–वोटिंग की सुविध उन सदस्यों को उपलबंध कराई जाएँगी, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट दिया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, परंतु एजीएम में वोट डालने के पात्र नहीं होंगे। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता हे कि

40वीं एजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के जिरें

सदस्य(यों) के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 को कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि पर कम्पनी का सदस्य है, वह एजीएम सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से वोट डालने हेतु पात्र है।

कोई व्यक्ति जो कम्पनी द्वारा एजीएम सूचना के प्रेषणोपरांत शेयर अर्जित कर सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 को शेयर धारक है, वहा अपना वोट डालने के लिए अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in या admin@skylinerta.com पर ई–मेल भेज कर युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति पहले ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के पास पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) से आरंभ होगी तथा बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2024 को सायं 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाने के बाद, सदस्य को उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

इस अवधि के दौरान, भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरधारक सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

सदस्यों को एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीम में भाग लेने वाले वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट दिया है. वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि. वे

एजीएम में वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और तरीका, एजीएम में ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के अनुदेश एजीएम सूचना में दिए गए हैं और कम्पनी की वेबसाइट https://kalyancapitals.com/wp-content/uploads/2024/09/KCL-Notice-of-AGM-2024 pdf और

एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य एजीएम सुचना में उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करने ई–वोटिंग के लिए युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। o. ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग ग

उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें या टोलफ्री नंबर : 022—48867000 और 022 – 24997000 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगे। . कम्पनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स हेमंत कमार सजनानी ऐंड एसोसिएटस, कम्पनी सचिव, के स्वामी श्री हेमंत कमार को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए

जांचकर्ता के रूप में नियक्त किया है। 2. परिणामों की घोषणा एजीएम समापन के दो कार्यदिवस के भीतर की जाएगी और जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.kalyancapitals.com एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com

पर प्रदर्शित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड को www.bseindia.com पर सूचित किए जाएंगे। रेकार्ड तिथि और बही बंदी कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स एजीएम के दृष्टिगत शनिवार, 21 सितम्बर, 2024 से शुक्रवार

27 सितम्बर, 2024 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेंगी। कृते कल्याण कैपिटल्स लिमिटेड

स्थान : साहिबाबाद र्डशा अग्रवाल दिनांक : 03-09-2024 कम्पनी सचिव

MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED CIN-L52110DL1985PLC020240 Regd Office: J-189, Basement, J Block, Saket, New Delhi 110 017 Website: www.meenakshisteel.in Email Id: meenakshisteelindustries@gmail.com

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at J-189, Basement, J Block, Saket, New Delhi 110 017 on Monday, 30th September, 2024 at 2:00 pm

The Annual Report for the financial year 2023-24 including the Notice convening this Annual General Meeting has been sent to the members at their registered address by post / courier and electronically to those members who have registered their email ld with the Company. The Book Closure date is Tuesday, 24th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive)

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at this Annual General Meeting by Electronic Mean (e-voting). The Members may cast their vote using an electronic voting system from the place other than Venue of the Meeting (Remote e-voting)

The Remote e-voting facility shall commence on Friday, 27th September, 2024 from 9.00 am and end on Sunday, 29th September, 2024 at 5.00 pm. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person whose name appear on Register of Members / Beneficial Owners as on 23rd September, 2024 (Cut-off date) only shall be allowed to avail the facility of remote e-voting /

By order of the Board of Directors

Place: Mumbai Date: September 3, 2024

Voting at the meeting.

Shivangi Murarka Managing Director (DIN-08370325)

धनवंतरी जीवन रेखा लि०

CIN:L85110UP1993PLC015458 पंजीकृत कार्यालयः 1, साकेत, मेरठ-250 003 यू.पी. फोनः 0121-2648151-52, 2651801, फैक्सः 2651803 e-mail: dhanvantrijeevanrekha@gmail.com; website: www.dhanvantrihospital.in वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोर्टिंग की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013, एमसीए परिपत्रों दिनांक 05/05/2020, 08/04/2020 एवं 13/04/2020 (सामुहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों और सेबी परिपत्र दिनांक 12/05/2020 व 05/05/2022 के अनुपालन में धनवंतरी जीवन रेखा लि0 के सदस्यों की वार्षिक साधारण सभा, एजीएम बुलाने के नोटिस में वर्णित कार्यवाही को निष्पादित करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विज्अल माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 को अपरान्ह 03.30 बजे सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आम स्थल पर होगी।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट व रिमोट ई-वोटिंग विवरण सहित बैठक की सूचना उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल पते आरटीए और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते और मोबाइल नबर पंजीकृत नहीं। कराए हैं उनसे अनुरोध है कि इसकी जानकारी कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाईनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के पास investor@beetalfinancial.com पर भेजकर पंजीकृत करा लें। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.djrl.org.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.co.in पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की दस्तावेजी प्रति सदस्यों को भेजने की आवश्यकता एमसीए व सेबी परिपत्रों के अनुसार समाप्त की जा चुकी है।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 22 सितम्बर, 2024 को प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ होगी और मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। सभा और रिमोट ई-वोटिंग में सम्मिलित होने की विस्तत प्रक्रिया वार्षिक साधारण सभा की सूचना में उल्लिखित है।

बोर्ड के आदेश से

स्थानः मेरठ दिनांकः 02.09.2024

(रितिका मंडारी) कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं. ए६०९६१

स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केटस लिमिटेड सीआईएनः L74899DL1987PLC027057

पंजीकृत कार्यालयः जी -17, कृष्णा अपरा, बिजनेस स्क्वायर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली 110034, ई-मेलः info@stancap.co.in वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक बुलाने की सचना

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ("कंपनी") की वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विज्अल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, एजीएम की सूचना में यथा निर्धारित कारोबार करने के लिए

पठित वर्ष 2015 के लिए अधिसूचना सं 2015 का संशोधन किया गया है। संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनका ई-मेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास पंजीकृत है। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.stancap.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ

सदस्यों द्वारा ईमेल पते को पंजीकृत करनेध्अपडेट करने का तरीकाः

 भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए – कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को info@skylinerta.com पर अनुरोध भेजें

 डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए – कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) से संपर्क करें

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः

सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई–वोटिंग के माध्यम से, डिमटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, एजीएम की सूचना में विस्तार से प्रदान किया गया है।

स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लिए

दिनाँकः 03 / 09 / 2024 स्थानः नई दिल्ली

विनीता गौतम कंपनी सचिव

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत बिक्री सूचना एसपीजी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड -परिसमापन में परिसमापक कार्यालयः 5203, डीएलएफ सिटी फेज —4, गुडगांव, हरियाणा—122002

ई-नीलामी की तिथि और समय: सोमवार, 07 अक्टूबर, 2024 सुबह 10 बजे से शाम 3.30 बजे तक मैसर्स एसपीजी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड - परिसमापन में वी -363, 364 और 365. नेहरू ग्राउंड. एनआईटी. फरीदाबाद. हरियाणा–121001. भारत की - माननीय एनसीएलटी. घंडीगढ़ द्वारा द्वारा दिनांक 07.08.2023 के आदेश द्वारा नियुक्त परिसमापक, "जैसा है" "जहां है", "जो कुछ भी है", और "कोई सहारा आधार नहीं", की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर जनता को सूचना दी जाती हैं।

आरक्षित मृल्य ईएमडी वृद्धिशील बोली व्यापार/संपत्ति की प्रकृति और विवरण (रू.में) (रू.में) राशि (रू.में) एक चालित कंपनी के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री नीलामी की तिथि और समयः सोमवार, 07 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक चालित कंपनी के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की | 70,65,000 | 5,00,000 | 1,00,000 (परिसमापन विनियम, 2016 के विनियमन 32 (ई) के तहत) जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं और

🛍 पार्सल में परिसंपत्तियों की बिक्री (यदि क्रमांक ए के तहत नीलामी के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई) नीलामी की तिथि और समयः सोमवार,07 अक्टूबर 2024को दोपहर 01:00 बजें से साथ 03:30 बजें तक दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर बी 363,364,365, नेहरू | 70,65,000 | 5,00,000 | 1,00,000 ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा—122001 पर भूमि और भवन, छत के

अधिकारों के साथ ई-नीलामी के नियम और शर्तेः

सीमित हैं

स्थानः गृहगांव

बिकी "जहां है", "जैसा है", "जो कुछ भी है" और "कोई सहारा आधार नहीं" पर है।

 बिक्री ई—नीलामी प्लेटफॉर्म (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) के माध्यम से अघोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। संपत्ति, संपत्ति आदि का विवरण ई--नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज में प्रदान किया जाता है जिसे

https://right2vote.in पर अपलोड किया जाता है और इसें ईमेल भेजकर भी प्राप्त किया जा सकता liquidator.spgglobalpvt@gmail.com प्रत्येक विकल्प / लॉट के लिए ईएमडी प्रस्तुत करने पर सभी दो विकल्पों में बोली लगाने की अनुमति

यदि विकल्प ए के तहत उच्चतम बोलीदाता उपरोक्त बिंदू में उल्लिखित बोली मुल्य प्रदान करता है, तो विकल्प ए के तहत एच 1 बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और विकल्प बी के तहत ई-नीलामी रद हो जाएगी।

पात्रता दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथिः 18.09.2024 योग्य बोलीदाता की घोषणा की तिथिः 25.09.2024 अंतिम निरीक्षण तक की तिथि: 02.10.2024 ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 04.10.2024 नीलामी की तारीखः 07.10.2024 परिसमापक को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को

रथगित / स्थगित / रद्द करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार हैं। प्रमोद कुमार मिश्रा परिसमापक - एसपीजी ग्लोबल डिस्टीब्युशन प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन के तहत) आईबीआईबी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P-02669/2022-2023/14099 दिनांक: 04.09.2024 एएफए 30.06.2025 तक मान्य है

पंजीकृत पता: 5203 डीएलएफ सिटी, फेज -4 गुडगांव, हरियाणा -- 122002

www.readwhere.com

एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(पूर्व में एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सीआईएनः L27109DL1995PLC338407

कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः बानी कॉर्पोरेट वन टावर, सुइट नंबर 308, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 5, जिला वाणिज्यिक केंद्र, जसोला, नई दिल्ली - 110 025 टेलीफोनः +91-011 44792982

> ई–मेलः cs@mblinfra.com, वेबसाइटः www.mblinfra.com वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई—वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर

तद्दवारा सूचित किया जाता है कि एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) की उनतीसव वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 3:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि नोटिस में बताए गए अनुसार कारोबार किया जा सके, जिसे 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ इलेक्टॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरीधलेंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आरटीए के साथ पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.mblinfra.com, और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com और एनडीएलएस की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने एजीएम में विचार किए जाने वाले प्रस्तावों पर एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग प्रदान करने के लिए एनएसडीएल के साथ व्यवस्था की है।

सदस्य, जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए ग लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट—ऑफ तारीख यानी 23 सितंबर, 2024 को दर्ज हैं केवल वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे। एक व्यक्ति जो कट—ऑफ तारीख को सदस्य नहीं है, उसे तदनुसार एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए मानना चाहिए। भौतिक मोड मे या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों या जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद लेकिन 23 सितंबर, 2024 को या उससे पहले कंपनी के सदस्य बनने वाले व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए युजर आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध करते

evoting @nsdl.co.in delhi@linkintime.co.in पर लिख सकते हैं। हालांकि, रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत सदस्य इस उद्देश्य के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई—वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे समाप्त होगी, उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा, एक बार जब सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बार फिर बैटक में अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

एजीएम से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, सदस्य श्री अनुभव माहेश्वरी, कंपनी सचिव, एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बानी कॉर्पोरेट वन, सुइट नंबर 308, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 5, वाणिज्यिक केंद्र, जसोला, नई दिल्ली – 110025 को लिख सकते हैं या 011–44792982 पर संपर्क कर सकते हैं या cs@mblinfra.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा ई—वोटिंग संबंधी प्रश्नों के लिए, शेयरधारक https://www.evoting.nsdl.com के 'डाउनलोड'अनुभाग के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्य) का संदर्भ ले सकते हैं या 022— 48867000 पर कॉल कर सकते है या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल और / या श्री अमित विशाल उप–उपाध्यक्ष, एनएसडीएल को e&voting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट

और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें कंपनी की वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से 24 सितंबर 2024

से 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

बोर्ड के आदेश से एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 03.09.2024

अनुभव माहेश्वरी कंपनी सचिव



बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001 सीआईएन : L15492WB1924GOI004835 दुरभाष: 033 22225612 ई-मेलः bhavsar.k@balmerlawrie.com

वेवसाइटः www.balmerlawrie.com

107वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की सूचना तथा ई-वोटिंग जानकारी

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा योटिंग के माध्यम से एजीएम बुलाए जाने की सूचना में निर्धारित व्यवसायिक पहलओं पर विचार-विमर्श करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए संबंधित नियमों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय "एमसीए") के साधारण परिपन्न सं, 20/2020 दिनांकित 5 गई, 2020 के पैरा 3 एवं पैरा 4 के साथ पठित साधारण परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 के पैरा 3ए, साधारण परिपन्न सं, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 के उप पैरा (i)ए तथा साधारण परिपत्र सं. 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए परिपत्रों") के अनुसार सदस्यों की शारीरिक रूप में उपस्थिति के बगैर दू वे वीडियो कॉफ्रेंसिंग ("वीसी") अथवा अन्य **ऑडियो-विज्अल साधनों ("ओएवीएम")** के जरिए बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 107वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 26 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12,00 बजे भागास आयोजित की जाएगी

एमसीए परिपत्रों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("संबी") के मॉस्टर परिपत्र संदर्भ सं सेवी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 दिनांकित 11 जुलाई, 2023 के साथ पठित सेबी परिपत्र संदर्भ सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/ 2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 के अनुसार अंतिम तारीख यानी शुक्रवार, 23 अगस्त 2024 (दिन के अंत तक) को कंपनी का शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में मंगलवार, 3 सितम्बर, 2024 को भेज दिए गए हैं। सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट https://www.baimer lawrie.com, स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी की इक्विटी शेयरें सुवीबद्ध हैं की वेबसाइट यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com एवं केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड ("केफिन") (पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट तथा ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगा।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों ("ई-वोटिंग") द्वारा 107वीं एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर उनके वोटाधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यगण यहां नीचे उल्लेखित तारीखों को केफिन की इलेक्ट्रॉनिक वोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल कर अपना वोट रिमोटली ("रिमोट ई-वोटिंग") डाल सकते हैं। इसके जलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए वोटिंग की सविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध रहेगी तथा एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यगण, जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान वोट डाल पाएंगे। एजीएम में उपस्थित होने, रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग के संबंध में विस्तारित निर्देशाविलयां एजीएम की सूचना में उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा नीचे उल्लेखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी: रिमोट ई-वोटिंग शुरूः सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को सुबह 09.00 बजे।

रिमोट ई-पोर्टिंग की समाप्तिः बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 को अपसहन 5.00 बजे जिन व्यक्तियों के नाम अंतिम तारीख यानी गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक) सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लाभार्थी रवत्वाविकारियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, सिर्फ वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाम पाने के पात्र होंगे।

ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय के उपरांत रिमोट ई-वोर्टिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी उपरोक्त अवधि के समाप्त होने पर केफिन द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रारूप निष्क्रिय कर दी जाएगी अंतिम तारीख यानी **गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक)** को भीतिक प्रारूप अथवा डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं। भौतिक प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यगण अथवा जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल

का पता का पंजीकरण नहीं कराया है, वे एजीएम की ऊपर उल्लेखित सूचना में उल्लेखित निर्देशावलियों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अथवा एजीएम के दौरान प्रदत्त ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं।

कंपनी के सदस्यमण जो भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखते हैं तथा कंपनी के साथ अपने ई-मेल पता का पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे एजीएम की सचना में निर्धारित प्रारूप के माध्यम से केफिन के पास समर्थित दस्तावेज सहित अपेक्षित आईएसआर प्रपन्न जमा करने का अनुरोध किया जाता है। अपने ई-मेल का पता पंजीकरण कराने के लिए सदस्यगण नीचे उल्लेखित विवरण पर मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, कंपनी के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) से से सम्पर्क कर सकते हैं। इकाई-बामर लॉरी एंड कं. लि.

ां, रोलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट मं.- 31 एवं 32, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना - 500032 ॥, दूरभाष नम्बर- 18003094001

iii. इंमेलः einward.ris@kintech.com बिमैट प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यगण ईमेल आईबी एवं अन्य विवरण के पंजीकरण के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों से सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने के बावजूद भी सदस्यगण 107वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उन्हें बैठक में दोबारा बोट जालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति सुचना मेजे जाने के उपरांत शेवरों का अधिग्रहण कर कंपनी के सदस्य बने हैं तथा अंतिम तारीख यानी गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक) शेयर धारण रखते हैं. evoting@kfintech.com पर अनरोध भेज कर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर वे रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल, सीडीएसएल अथवा केफिनटेक के साथ पंजीकृत हैं, तो वे वोट ढालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सम्पर्क विवरण: किसी भी तरह के प्रश्न/शिकायत रहने पर आप https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए फ्रिक्वेंटली आक्स्ड क्वैश्चन्स (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग युजर मैनअल देख सकते हैं अथवा उसे श्री जी, रामदास, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नं - 31 एवं 32, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगृडा, सेरिलिंगमपल्ली, डैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500032 को संबोधित भेज सकते हैं अथवा einward.ris@kintech.com पर ईमेल भेज सकते हैं अथवा 18003094001 (टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं।

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण वही शक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 से गुरुवार, 26 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी।

सदस्यों द्वारा घोषणा किए जाने पर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश अंतिम तारीख यानी गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (दिन के अंत तक) को कंपनी के शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को इसकी घोषणा की तारीख़ से 30 दिनों की सांविधिक समय-सीमा के अंदर भगतान कर दिया जाएगा।

ई-योटिंग के निष्पक्ष तथा पारवर्शी तरीके से संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया के जांचकर्ता के रूप में श्री नवीन कोठारी, मैसर्स एन. के. एण्ड एसोसिएटस के स्वत्वाधिकारी, अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 5935 एवं अभ्यास प्रमाणपत्र सं. 3725) को नियुक्त किया गया है।

कृते वामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड कविता भावसार

दिनांक : 4 सितम्बर, 2024 कंपनी सचिव स्थान : कोलकाता

HOLDING LTD

फेडर्स होल्डिंग लिमिटेड (सीआईएन: L74140UP1991PLC201030)

पंजीकृत कार्यालयः सी–15, जारखेसी, राज नगर, गाजियाबाद, उगर प्रदेश – 201001 दूरमाय नंतर: 9810268747; ई-मेल: imcapitalscompliances@gmail.com वेबराष्ट्र: https://imcapitals.com

फेर्ड्स होल्डिंग लिमिटेड की 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

(पूर्व में आईएम+ कंपिटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) एतदवारा सूचना दी जाती है कि फेडर्स होल्डिंग लिमिटेड की 33वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम")

किसी सार्वेजनिक स्थल पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विज्अल साघनों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए शनिवार 28 सितंबर 2024 को अपराह 03:00 बजे (आईएसटी), आयोजित की जाएगी कंपनी ने 33वीं एजीएम की सचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मंगलवार, 03 सितंबर, 2024

को उन सदस्यों को भंजी है जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (ध्आरटीएर्ध / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत हैं, जो कि सामान्य परिपन्न 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, २०२०, सामान्य परिपन्न संख्या 17 / २०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, सामान्य परिपन्न संख्या २० / २०२० दिनांक ०५ मई, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या ०२ / २०२१ दिनांक १३ जनवरी, २०२१, सामान्य परिपत्र संख्या २ / २०२२ दिनांक ०५ मई, २०२२, सामान्य परिपत्र संख्या १० / २०२२ दिनांक २८ दिसंबर, २०२२ और सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25.09.2023 (सामृहिक रूप से कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 33वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.imcapitals.com और स्टॉक

सदस्यगण केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल तथा उपस्थित हो सकते है। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं । वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि बुचवार, 25 सितंबर 2024 (09:00 पूर्वाहन IST) से शुरू होगी और शुक्रवार, 27 सितंबर 2024 (अपराहन 05:00 IST) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, सदस्य हेलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं । रिमोट ई—वोटिंग मापान्क को शक्रवार. 27 सितंबर | 2024 अपराहन 5:00 बजे लिंक इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उसके बाद सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग मापान्क बैठक के समापन के 15 मिनट बॉद मतदान के लिए लिंक इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के केवल एक तरीके का विकल्प चन सकते हैं अर्थात या तो एजीएम से पहले या एजीएम के दौरान। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहेंले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट खाला है, वे भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल / भाग ले सकते हैं लेकिन पुनः बोट

निदेशक मंडल ने सुश्री चेतना भोला, कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस, सदस्यता संख्या A41283 और C.P. सं. 15802, को रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए

संवीक्षक के रूप में नियक्त किया है। यदि शेयरधारक / सदस्य भौतिक रूप में प्रतिभृतियों को धारण करते हैं या संस्थागत शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और इंस्टावोट ई—वोटिंग मैनुअल का संदर्भ, हेल्प संक्शन के अंतर्गत https://instavote.linkintime.co.in

इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ई-मेल : rj.headoffice@gmail.com, वेबसाइट : www.indogulfind.com दूरभाष : 0135-2114568 / 2735249, फैक्स : 0135-2733960 निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) : L74900DL1981PLC011425 वार्षिक साधारण सभा. ई-वोटिंग तथा बही समापन तिथि की सचना

तददारा सचित किया जाता है कि कंपनी की 41वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) का आयोजन सोमवार 30 सितंबर 2024 के क्ष्याहन 11.00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य दृश्य–श्रव्य संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा। यह आयोजन, एमसीए व नामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र तं. 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020, सामान्य परिपत्र सं. 22/2020 दिनांकित 15 जून 2020, सामान्य परिपत्र सं. 33/2020 दिनांकित 28 सितंबर 2020, सामान्य परिपत्र सं. 39/2020 दिनांकित 31 दिसंबर 2020, परिपत्र सं. 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी २०२१ तथा सामान्य परिपत्र सं. ०२/२०२२ दिनांकित ५ मई २०२२ (सामृहिक रूप में ''एमसीए परिपत्र'') तथा भारतीय विभित्त एवं विनियम बोर्ड (''सेबी'') ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित १२ मई २०२०, परिपत्र संः सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / २०२१ / ११ दिनांकित १५ जनवरी २०२१ परिपत्र स. संबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनाकित 13 मई 20222 (सामृहिक रूप 'सेबी परिपत्र'') (यहां इसमें इसके उपरांत सामूहिक रूप में परिपत्रों के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, कंपनियों को किसी प्ताधारण स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीसी के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति प्रदान की नाती है। इस प्रकार, कंपनी की एजीएम का आयोजन वीसी के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय क नेन—देन करने के लिए किया जा रहा है। परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023—24 र्क इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गयी हैं जिनकी ईमेल आईडी केंपनी / डिपाजिटरी प्रतिभागी(गियों) वे नाथ पंजीकृत हैं। यह प्रलेख कंपनी की वेबसाइट **WWW.INDOGULFIND.IN** पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। ईमेल्स के माध्यम से एजीएम की

सूचना का प्रेषण—कार्य 04.09.2024 को पूर्ण कर लिया गया है। pट—ऑफ तिथि 23.08.2024 के अनुसार भौतिक प्रारूप या अभौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले सदस्य, एजीएम क्री मुचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय पर, सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई–वोटिंग) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपने वोट डाल सकते हैं। अतः सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :-

रिमोट ई-वोटिंग का आरंभ मंगलवार 27.09.2024 को प्रातः 09.00 बजे होगा। रिमोट ई—वोटिंग का समापन बृहस्पतिवार 29.09.2024 को सायं 05.00 बजे होगा।

ई-वोटिंग की सविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 29.09.2024 को सायं 5.00 बजे के उपरांत निष्क्रिय कर दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अंशों का उपार्जन करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषणोपरांत एक सदस्य बनता

और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23.09.2024 के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह www.evotingindia.com पर एव

निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले

से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपना वोट डालने के लिए विद्यमान वर्तमान प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड vii. सदस्यगण ध्यान दें कि— क) रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा 29.09.2024 को सायं 05.00 बजे भा.मा.स के बाद निष्क्रिय कर दिया जायेगा और यदि सदस्य द्वारा एक बार किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी; ख) वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध करायी जायेगी और जो सदस्यगण वीसी सविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहते हैं तथा जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम प्रस्तावों पर अपने वोट नहीं डाले हैं तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के लिए पात्र होंगे; **ग)** और ऐसे सदस्यगण जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल दिये हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उन्हें एजीएम में पुनः अपने वोट डालने वे

viii. अभौतिक प्रारूप, भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले सदस्यों के लिए तथा उन सदस्यों के लिए, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, दूरस्थ माध्यम से वोट डालने की प्रविधि का वर्णन एजीएम की सूचना में किया गया है। इस संबंध में विस्तुत–विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराये गये हैं। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे विस्तृत–विवरण प्राप्त करने के लिए www.Indogulfind.in देखें।

पार्टिसिपेंट(ट्स) के साथ पंजीकृत कर लें तथा भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले सदस्यगणों से निवेदन है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और अंशांतरण अभिकर्ता बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ beetalrta@gmail.com पर अपने ईमेल पते अद्यतनीकृत कर लें, ताकि उन्हें 41वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 की प्रतियां, रिमोट ई–वोटिंग के अनुदेश तथा वीसी के माध्यम से एजीएम में भागीदारी करने हेतु अनुदेश

यदि आपके पास एजीएम में उपस्थित होने एवं ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न या शिकायत है तो आप www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं अथवा श्री नितिन कुंदर (022–23058738) अथवा श्री महबूब लखानी (022–23058543) अथवा श्री

पिया चौधरी

कंपनी सचिव

खान : नई दिल्ली दिनाँक: 04-09-2024

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी) [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत] वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल संपत्ति की बिक्री हेत्

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) या उनके कानुनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा जमानितयों से बकायों की वसूली के लिए 08 अक्टूबर, 2024 (ई-नीलामी तिथि) को ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट वाले सीलबंद लिफाफे को हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के पास 07 अक्टूबर, 2024 को शाम 5 बजे तक शाखा कार्यालयः कार्याय

पर चार मंजिला इमारत में निर्मित, कृष्णा कुंज फेज-02, ग्राम- रईसपुर, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010, सुपर एरिया माप 87.32 वर्ग मीटर और कवर्ड एरिया माप 78.59 वर्ग मीटर, इसमें तीन शयनकक्ष, एक ड्राइंग रूम, दो टॉयलेट बाथरूम और एक रसोईघर शामिल, खसरा नंबर 1532 पर प्लॉट नंबर

इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि आरटीजीएस/एनईएफटी या डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से **''हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड''** के पक्ष में जमा करानी होगी। ईएमडी राशि ई-नीलामी के समापन के बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें : 1. ई-नीलामी ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'', ''जो कुछ भी है वहीं है'' और ''बिना किसी आश्रय'' के आधार पर आयोजित किया जा रहा है और इसे 'ऑनलाइन' आयोजित किया जाएगा। 2. बोली वृद्धि राशि रु. 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) होगी। 3. ई-नीलामी **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड** के माध्यम से (हेल्पलाइन नंबर: 07961200576/544/594

tiontiger.net) उनके वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर आयोजित की जायेगी।

4. प्रतिभूत लेनदारों की जानकारी में संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपने बिल जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व और दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पछताछ करनी चाहिए। इस संबंध में, ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा।

15961 531/583/569, 6351896643 और ई-मेल support@auctiontiger.net/maulik.shrimali@auc-

निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइटः www.herohousingfinance.com में प्रकाशित की गई हैं

तथा शेखर सिंह/9711522275/ shekhar.singh@herohfl.com से संपर्क करें। 7. संभावित बोलीदाता पूर्व अपॉइंटमेंट के साथ 1 अक्टूबर, 2024 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को 30 दिनों की बिक्री सचना

नीलामी की तिथि से पहले ब्याज और व्यय के साथ करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई भी, आपसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) की वेबसाइट वेबसाइट www.herohousingfinance.com पर लिंक https://uat.herohomefinance.in/

> कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी, श्री सुनील यादव, मो. 9818840495,

दिनांक: 04.09.2024

स्थानः दिल्ली/रा.रा.क्षे.

hero housing/other-notice देखें।

एफ4767

तिथिः 03 सितम्बर 2024

स्थानः गाजियाबाद

एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेंड की वेबसाइट www.bscindia.com पर उपलब्ध है।

गणना की उद्देश्य के लिए की जाएगी ।

डालने के हकदार नहीं होंग

वेबसाइट पर ले सकते हैं या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल भेज सकते है या दुरभाषः 022 –4918 6000 पर संपर्क करे सकते है। बोर्ड के आदेशानुसार

कृते फेडर्स होल्डिंग लिमिटेड विशाल सिंघल पुर्ण कालिक निदेशक डीआईएनः ०३५१८७५५

निगमित कार्यालय : 154, राजपुर रोड, जखान, देहरादुन, उत्तराखण्ड-248001

अधिकार नहीं होंगे; तथा, घ) केवल वही व्यक्तिगण जिनके नाम कट—ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में प्रविष्ट पाये जाते हैं, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम मे

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पतों का पंजीकरण नहीं कराया है उनसे निवेदन है कि वे अपने ईमेल पते संबंधित डिपॉजिटर

अपने लाभांश प्राप्त करने के लिए मैनडेट्स का पंजीकरण करने की इच्छा रखनेवाले सदस्यगण जिस प्रविधि की ढूंढ क रहे हैं, उसका विस्तृत-विवरण सूचना में दिया गया है।

राकेश दल्वी (022-23058542) से संपर्क कर सकते हैं। xii. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से जुड़ी हुयी समस्त शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई–400013 को अपनी शिकायत लिखकर भेज सकते हैं अथवा शिकायत, ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेज सकते हैं अथवा 022-23058542 / 43 पर कॉल कर सकते हैं। बोर्ड हेतु तथा उसकी ओर से

इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ०१, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057, शाखा कार्यालय : 27 कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057

सं. ७, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-11005७ में जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/ जमानती(यों)/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि तक राशि	कब्जे का प्रकार (रचनात्मक∕भौतिक कब्जे के तहत)	आरक्षित मूल्य जमा धरोहर राशि
HHFDELH OU190000 05618	विनीत मलिक, उर्वशी पत्नी विनीत मलिक, प्रीति श्योरान	25/08/2023 रु. 20,38,577/- तिथि 31/08/2024 तक	भौतिक कब्जा	रु. 19,00,000/− रु. 1,90,000/−
संपत्ति का विवरणः छत के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर-32, खसरा नंबर 1532, खाता नंबर 175				

32, सीमाएं: उत्तरः प्लॉट नंबर 31, पूर्वः प्लॉट नंबर 25, दक्षिणः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः 18 फीट चौड़ी सड़क नियम एवं शर्ते : ई-नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से 08 अक्टूबर, 2024 (ई-नीलामी की तिथि) को 2.00 **बजे अप. के बाद** 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ सम्पन्न होगी।

5. प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभृत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनिर्नाण और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत

6. संपत्ति के विवरण और संपत्ति देखने के लिए श्री इरशाद अली / ershad.ali@herohfl.com/ 8802270415

उपर्युक्त कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती को एतद्वारा धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान

ई-मेल : assetdisposal@herohfl.com